



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी। प्रेस - विज्ञप्ति

दिनांक- 01.08.22

दिनांक 01.08.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मुकदमे से संबंधित चोरी गये टोटो की बैटरी को 24 घण्टे के अंदर बरामद करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर टोटो की बैटरी को बरामद किया गया।

1- श्रीमान् पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में कमिश्नरेट वाराणसी के थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 31.07.2022 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/22 धारा 379 भादवि से संबंधित चोरी गये टोटो की बैटरी को मात्र 24 घण्टे के अंदर ही शत प्रतिशत बरामदगी करते हुए घटना को कारित करने वाले अभियुक्तगण को आज दिनांक 01.08.2022 को समय 11.00 बजे दारानगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गयी टोटो की बैटरी को बरामद करने में सफलता प्राप्त किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय से विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 70/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी

3. आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 241/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना चेतगंज अभियुक्त शाहरुख के विरुद्ध
2. मु0अ0सं0 187/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना चेतगंज अभियुक्त आकाश विश्वकर्मा के विरुद्ध।

4. गिरफ्तार अपराधियों का विवरण-

1. आकाश विश्वकर्मा पुत्र बब्लू विश्वकर्मा नि0 भगवानाला हुकुलगंज थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी उम्र 22 वर्ष
2. शाहरुख खान पुत्र मकसूद खान नि0 एस 13/52 ए तेलियाबाग थाना चेतगंज वाराणसी उम्र 20 वर्ष

5. विवरण बरामदगी -

1. टोटो की एक अदद बैटरी लाल रंग की

6. गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसीय
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह चौकी प्रभारी अमियामण्डी, थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी
3. का0 देवेन्द्र यादव, थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी।